

मुख्य सचिव कार्यालय
राजस्थान, जयपुर
पत्र. सं13011/20/2021 रा. भा. (कै. अनु. ब्यूरो.) 1752858/09/23
प्राप्ति संख्या 17oct23

भारत सरकार गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

For Secy Del
Shri 10/11/23

11 OCT 2023

चौथा तल, एन. डी.सी.सी.-2 भवन,

जयसिंह रोड, निकट जंतर-मंतर, नई दिल्ली-110001.

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2023

कार्यालय जापन

विषय:- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई और कोलकाता स्थित मुख्यालय में संयुक्त निदेशक संशोधित वेतन लेवल-12 ₹78,800-2,09,200 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600- 39,100+7600) के दो पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र मुंबई और कोलकाता में संयुक्त निदेशक संशोधित वेतन लेवल-12 ₹78,800- 2,09,200 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, ₹15600-39,100+7600) के दो पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए उपयुक्त अधिकारी की सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है। इस पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव तथा अन्य ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं। इस पद पर चयनित अधिकारी का वेतन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून 2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्था (वेतन- II), समय-समय पर यथासंशोधित, में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

2. अतः अनुरोध है कि इस पद के लिए योग्य, इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों, जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक 11) में, इस कार्यालय जापन के जारी होने या इस कार्यालय जापन के इम्प्लायमेंट न्यूज / रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर जो भी स्थिति बाद में हो,

निम्नलिखित दस्तावेजों सहित अधोहस्ताक्षरी को उचित माध्यम से भेज दें-

(1) आवेदक की संपूर्ण गोपनीय रिपोर्टों के डोजियर अथवा पिछले पांच वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटो प्रतियां फोटो प्रति का प्रत्येक पृष्ठ समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो।

(II) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र

(III) अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक / सतर्कता पर मामला लंबित न हो तथा न ही इस प्रकार का कोई मामला चलाए जाने का विचार है, का प्रमाण पत्र। (iv) अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान यदि कोई छोटी बड़ी शास्ति लगाई हो, का विवरण। (यदि कोई शास्ति न लगाई हो तो "शून्य" प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)

(V) आवेदक के संबंध में संवर्ग अनापत्ति प्रमाण पत्र।

2

3. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र या जिनके साथ संपूर्ण वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का डोजियर या वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की सत्यापित प्रतियां नहीं होंगी या संबंधित कार्यालय की सहमति के बिना प्राप्त होंगे अन्यथा अपूर्ण होंगे, उन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। जो अधिकारी आवेदन करेंगे उन्हें अपना आवेदन पत्र बाद में वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय इस बात की जांच एवं पुष्टि कर ली जाए कि अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विवरण सही हैं। इस बात की भी पुष्टि कर दी जाए कि नियुक्ति के लिए चुने जाने की स्थिति में, संबंधित अधिकारी को उसके कार्यों से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा

प्रेम नारायण

(प्रेम नारायण)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 01123438250

सेवा में,

1. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय ।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय ।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय।
5. मंत्रीमंडल सचिवालय ।
6. भारत का निर्वाचन आयोग
7. लोकसभा / राज्यसभा सचिवालय ।
8. संघ लोक सेवा आयोग ।
9. केंद्रीय सतर्कता आयोग
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
11. गृह मंत्रालय (मुख्यालय) / न्याय विभाग / जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग तथा

राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।

12. गृह मंत्रालय के सभी काडर यूनिट ।
13. सभी राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र सरकार ।
14. निदेशक (नीति / तकनीकी / कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ।
15. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
16. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. राजभाषा विभाग ।
18. गार्ड फाइल
19. अतिरिक्त प्रतियां 20

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, संयुक्त निदेशक के पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव तथा अन्य विवरण

1	पद का नाम	संयुक्त निदेशक
2	पदों की संख्या	02 (दो)
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित।
4	वेतनमान	वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12, रु.78,800-2,09,200 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-3, रु.15,600-39100 + गेड वेतन- 7600
5	प्रतिनियुक्ति की अवधि एवं आयु सीमा	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6	पात्रता	प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 11, रु.67,700-2,08,700 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं : अर्थात् आवश्यक:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर की उपाधि, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि,

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो, के साथ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में मास्टर की उपाधि,

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी में शब्दावली का प्रयोग/लागू करना (शब्दावलीय कार्य) और अंग्रेजी से हिंदी या इसके विप्रेयन, वरीय रूप से तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद का दस वर्ष का अनुभव

या

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान (शोध) का दस वर्ष का अनुभव ।

		<p><u>वांछनीय:</u></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (दसवीं) स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो;</p> <p><u>टिप्पण</u> : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।</p>
7.	पद के कर्तव्य	<p>संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के मूल्यांकन और प्रशिक्षण प्रभाग के प्रभारी होंगे। वे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत अनुवादकों द्वारा किए जा रहे हिंदी अनुवाद कार्य का मूल्यांकन करेंगे और अनुवाद तकनीक के संबंध में दिशानिर्देश देंगे। वे हिंदी अनुवादकों के लिए चलाए जा रहे अनुवाद तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्रशिक्षण सामग्री, सहायक साहित्य तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे। वे अनुवाद प्रभाग में कार्यरत अधिकारियों का मार्गदर्शन भी करेंगे और हिंदी अनुवाद की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।</p>

आवेदन पत्र का प्रारूप

1 नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) मोबाइल नं. ई-मेल आईडी	
2 जन्म तिथि (ईस्वी सन)	
3 (i) सेवा में आने की तारीख (ii) केन्द्र/राज्य सरकारी नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4 शैक्षिक योग्यताएं	
5 क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं (यदि कोई अर्हता नियमों में निर्धारित अर्हता के समरूप मानी गई हो तो उसके प्रमाण का उल्लेख करें)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में यथाउल्लिखित अर्हता/अनुभव आवश्यक:	अधिकारी द्वारा प्राप्त अर्हता/अनुभव : आवश्यक: (क) अर्हता (ख) अनुभव
वांछनीय (क) अर्हता (ख) अनुभव	वांछनीय (क) अर्हता (ख) अनुभव
5.1 टिप्पणी : परिपत्र/रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी करते समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में यथाउल्लिखित आवश्यक और वांछित अर्हताओं को प्रदर्शित करने के लिए इस कॉलम को प्रवर्धित करने की आवश्यकता है।	
5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में आवेदक के एच्छक/मुख्य विषयों तथा सहायक विषयों को निर्दिष्ट करना होगा।	
6 ऊपर दी गई प्रविष्टियों के आलोक में कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आप पद के लिए आवश्यक अर्हताएं और कार्य का अनुभव रखते हैं।	
6.1 टिप्पणी : आवेदित पद के संदर्भ में आवेदक द्वारा धारित संबंध आवश्यक अर्हता/कार्य अनुभव (जीवनवृत्त में यथानिर्दिष्ट) की पुष्टि करते हुए आपूर्तिकर्ता विभागों को अपनी विशेष टिप्पणी/दृष्टिकोण उपलब्ध कराने होंगे।	

7. अवधिवार रोजगार के ब्यौरे। यदि नीचे स्थान पर्याप्त न हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित अलग शीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	कार्य का स्वरूप (विस्तृत रूप में) जिसमें आवेदित पद के लिए अपेक्षित अनुभव को विशिष्टता से दर्शाया गया है।

* महत्वपूर्ण : एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अधिकारी के लिए व्यक्तिगत होता है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान का उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी के ब्यौरे का निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जाए जहां आवेदक द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हों :

कार्यालय/संस्था	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के तहत आहरित वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	से	तक
8 वर्तमान रोजगार का स्वरूप अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी			
9 प्रतिनियुक्ति / अनुबंध आधार पर धारित वर्तमान रोजगार के मामले में कृपया उल्लेख करें			
(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख	(ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि	(ग) आवेदक का मूल कार्यालय/संगठन	(घ) मूल संगठन में वास्तविक सामर्थ्य में धारित पद का नाम और वेतन
9.1 टिप्पणी : पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामले में ऐसे अधिकारियों के आवेदन उनके मूल कैडर/विभाग द्वारा संवर्ग अनापति, सतर्कता अनापति और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित किए जाने चाहिए।			

9.2 टिप्पणी : ऊपर कालम 9 (ग) और 9(घ) के तहत सूचना उन सभी मामलों में दी जाए जहां कोई आवेदक कैडर/संगठन से इतर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है परंतु अपने मूल कैडर/संगठन में अभी भी ग्रहणाधिकार पर है।

10 आवेदक द्वारा पूर्व में यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति पर धारित किया गया है तो पिछली प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तारीख और अन्य ब्यौरे।

11 वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे कृपया उल्लेख करें - निम्नलिखित के अंतर्गत कार्यरत हैं :
(संबद्ध कालम में अपने नियोक्ता का नाम निर्दिष्ट करें)

(क) केन्द्र सरकार

(ख) राज्य सरकार

(ग) स्वायत्त संगठन

(घ) सरकारी उपक्रम

(ङ) विश्वविद्यालय

(च) अन्य

12 कृपया उल्लेख करें : क्या आप उसी विभाग में और फीडर ग्रेड अथवा फीडर के फीडर ग्रेड में कार्यरत हैं।

13 क्या आप वेतन के संशोधित वेतनमान में हैं। यदि हां, तो संशोधन की तारीख और संशोधन पूर्व वेतनमान का उल्लेख करें।

14 प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां

वेतनबैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां

15 यदि आवेदक ऐसे संगठन का सदस्य है जो केन्द्र सरकार में लागू वेतनमान का अनुसरण नहीं करता तो संगठन द्वारा जारी निम्नलिखित ब्यौरे दर्शाने वाली अद्यतन वेतन पर्ची संलग्न की जाए

वेतनमान और वृद्धि दर सहित मूल वेतन	महंगाई भत्ता/अंतरिम सहायता/अन्य भत्ते आदि (अलग-अलग ब्यौरों के साथ)	कुल परिलब्धियां

<p>16 (क) आवेदित पद के संबंध में, पद हेतु आपकी उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो। (इसके अलावा (i) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित के अतिरिक्त कार्य अनुभव, के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है।) (टिप्पणी : स्थान अपर्याप्त होने पर अलग शीट संलग्न करें)</p>	
<p>16 (ख) उपलब्धियां : उम्मीदवार कृपया निम्नलिखित के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट्स तथा विशेष प्रोजेक्ट्स 2. पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशस्ति 3. व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं/समितियों से संबंधन और 4. अपने नाम से पंजीकृत अथवा संगठन के लिए प्राप्त पेटेंट्स 5. कोई अनुसंधान / अभिनव मानदंड जिसे आधिकारिक पहचान मिली हो 6. कोई अन्य सूचना (टिप्पणी : स्थान अपर्याप्त होने पर कृपया अलग शीट संलग्न करें) 	
<p>17 कृपया उल्लेख करें कि आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) / विलयन / पुनःरोजगार आधार # पर आवेदन कर रहे हैं (केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अधिकारी ही केवल "विलयन" के लिए पात्र हैं। गैर सरकारी संगठन के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र हैं)</p>	
<p># "एसटीसी"/"विलयन" पुनः रोजगार का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब रिक्ति परिपत्र में "एसटीसी" अथवा "विलयन" अथवा "पुनः रोजगार" द्वारा भर्ती का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया हो।</p>	
<p>18 क्या आप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं।</p>	

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवश्यक योग्यता / कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित मेरे जीवनवृत्त में प्रस्तुत सूचना का पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदत्त सूचना / ब्यौरे मेरी पूरी जानकारी में ठीक और सत्य हैं तथा मेरे चयन को प्रभावित करने वाले किसी विषय को छुपाया / रोका नहीं गया है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पता: _____

ईमेल सहित: _____

दिनांक:

स्थान:

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई सूचनाएं/ब्यौरे सत्य और ठीक हैं। वे उक्त परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते/रखती हैं। चयन होने की स्थिति में उन्हें तत्काल मुक्त कर दिया जाएगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

- i. श्री/श्रीमती----- के विरुद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचारणीय नहीं है।
- ii. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- iii. उनकी सत्यनिष्ठा रिपोर्ट मिसिल (सीआर डोजियर) की मूल प्रति संलग्न की जाती है। भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के पद के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की छाया प्रतियां संलग्न की जाती हैं।
- iv. पिछले वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी / छोटी शास्ति आरोपित नहीं की गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति की सूची संलग्न की गई है। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षरित
(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी मुहर सहित)

(11)

File No.13011/20/2021-OL(CTB)
GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE/RAJBHASHA VIBHAG

NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi-110001
Dated the 16 October, 2023
11

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Filling up of two Posts of Joint Director Level-12, 78,800-2,09,200 (pre-revised PB-3, 15,600-39,100+7600) on deputation basis in Central Translation Bureau, Translation Training Centre Mumbai and Kolkata on deputation basis in Central Translation Bureau, A subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

The services of two suitable officers are urgently required for filling up the post of Joint Director on deputation basis in Central Translation Bureau, Translation Training Centre, Mumbai and Kolkata a Subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs on deputation basis, in the revised pay scale Pay Level-12, 78,800-2,09,200 (pre-revised PB-3, 15,600-39,100+7600 Grade pay). The qualifications and experience required for the post and other details are given in Annexure-I. The pay of selected officer will be regulated in accordance with the instruction contained in the Department of Personnel & Training Office Memorandum No. 6/8/2009-Estt (Pay-II) dated 17th June, 2010, as amended from time to time.

2. It is requested that the application (in duplicate) in the enclosed performa (Annexure-II) of suitable, willing and eligible officers and who can be spared immediately on selection may be sent to the undersigned within 60 days from the date of issue of the Office Memorandum or from the date of publication of this Office Memorandum in Employment News/Rozgar Samachar, whichever is later along with the following documents:-

- (i) Clear Photostat copies of their ACR/APAR for the last 5 years i.e. 2018-19 to 2022-23 duly attested by Group "A" Gazetted Officer.
- (ii) Integrity Certificate.
- (iii) Certificate confirming that no disciplinary/Vigilance case is either pending or being contemplated against the officer.
- (iv) A statement showing major or minor penalties, if any, imposed on the applicant during the last 10 years.
- (v) Cadre clearance in respect of the applicant.

12

3. Application received after the closing date or without the photostat copies of ACR/APAR duly attested by a Group 'A' officer or without recommendation of the concerned office or otherwise found incomplete are liable to be rejected. Officers who apply for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently. While forwarding the applications it may be verified and certified that particulars furnished by the officer are correct. It may also be confirmed that in the event of selection for appointment, the officer concerned will be immediately relieved of his duties.

Prem Narain
(Prem Narain)

Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele: 011-23438250

To,

1. All Ministry/Department of Government of India.
2. The President's Secretariat, New Delhi
3. The Vice President's Secretariat, New Delhi
4. The Prime Minister's Office, New Delhi.
5. The Cabinet Secretariat, New Delhi.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.
8. Union Public Service Commission.
9. Central Vigilance Commission.
10. Comptroller General of India, New Delhi.
11. All officers, Desks and Sections in the Ministry of Home Affairs (proper), Department of Justice and Department of J&K Affairs & Department of Official Language.
12. All Cadre Unit of Ministry of Home Affairs.
13. All State Government & UTS
14. Director (Training/Policy/Technical/Implement), Department of Official Language.
15. Director, Central Hindi Training Institute, New Delhi.
16. Director, Central Translation Bureau, New Delhi
17. Senior Technical Director, NIC, Department of Official Language, New Delhi for placing this OM on the website of Department of Official Language.
18. Guard File
19. Spare copy 20

Prem Narain
(Prem Narain)

Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele: 011-23438250

ANNEXURE-I

Qualification, experience and other details required for the post of Joint Director, Central Translation Bureau, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi.

1	Name of the post	Joint Director
2	No. of Post(s)	02 (Two)
3	Classification	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.
4	Scale of Pay	Pay Matrix Level-12, ₹78,800-2,09,200 (Pre-revised PB-3, ₹15,600-39,100+7600₹ Grade pay).
5	Period of deputation & age limit.	The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
6	Eligibility	<p>Deputation:</p> <p>I. Officers from the Central/State Government/Union Territories:-</p> <p>(a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR</p> <p>(ii) with five years' service in the grade after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Level-11 of the Pay Matrix ₹67,700-2,08,700/-) or equivalent in the parent cadre / department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience namely:</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level,</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level,</p>

OR

Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level,

OR

Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level:

(ii) Ten year's experience of using/applying terminology (Terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific literature under Central/State Government/Autonomous Bodies/Statutory Organizations/Public Sector Undertaking/Universities or recognized Research or Educational Institutions.

OR

Ten year's experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Government/Autonomous Bodies/Statutory Organizations/Public Sector Undertakings/Universities or recognized Research or Educational Institutions.

Desirable: Study of one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the Constitution at 10th level from a recognized Board.

Note 1: The Departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

7	Duties of Joint Director	He will be in charge of the Evaluation and Training Division of the Bureau. He will evaluate the Hindi transition work done by the Translators working in various Ministries and Departments provide guidelines for translation technique, and to improve the quality of Hindi translation. He will responsible for running Training courses in translation technique for Hindi Translator, to prepare training material and associate literature. He will also provide guidance to the officers of the Translation Division.
---	--------------------------	---

CURRICULUM VITAE PROFORMA (BIODATA)

1. Name and Address (in Block Letters) (Mob. No. and E-mail Id)	
2. Date of Birth (in Christian era)	
3. (i) Date of entry into service (ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4. Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
Qualification /Experience required as mentioned in the advertisement /vacancy circular. Essential: a) Qualification b) Experience	Qualification /Experience possessed by the officer Essential : a) Qualification b) Experience
Desirable: a) Qualification b) Experience	Desirable: a) Qualification b) Experience
(5.1) This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the administrative Ministry /Department /Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.	
(5.2) In case of Degree and Postgraduate Qualifications, elective /main subject and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.	
6) Please state clearly whether in the light of entries made by you above you meet the requisite Essential Qualification and work experience of the post.	
6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments / views confirming the relevant Essential qualification/ work experience possessed by the candidate (as indicated in the bio-data with reference to the post applied for.)	

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient:

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	*Pay band and Grade Pay /Pay Scale of the post held on regular basis	Nature of duties (in detail) highlighting the experience required for the post applied for

***Important:** Pay Band and Grade Pay granted under ACP /MACP are personal to the officer and therefore should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay /Pay Scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP /MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the candidate may be indicated as below:

Office /Institution	Pay, Pay Band and Grade Pay drawn under ACP/MACP scheme	From	To
8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent			
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state:-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent organization
9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity Certificate.			
9.2 Note: Information under column 9(C) & 9(D) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/organization but still maintaining a lien in his parent cadre/organization.			
10. If any post held on deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.			

11. Additional details about present employment:

Please state whether working under
(indicate the name of your employer
against the relevant column)

- (a) Central Government.
- (b) State Government
- (c) Autonomous Organization
- (d) Government Undertaking
- (e) Universities
- (f) Others

12. Please state whether you are working in the same
Department and are in the feeder grade or feeder to
feeder grade

13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date
from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale

14. Total emoluments per month now drawn

Basic pay in the pay band

Grade pay

Total Emoluments

15. In case the applicant belongs to an Organization which is not following the Central Government Pay
Scale, the latest salary slip issued by the Organization showing the following details may be enclosed

Basic pay with scale of pay and rate of
increment

Dearness
pay/Interim relief/
other Allowances
etc.(with break-up
details)

Total Emoluments

16. (a) Additional information, if any, relevant to
the post you applied for in support of your
suitability for the post.

(This among other things may provide
information with regard to :

- (i) additional academic qualifications
- (ii) professional training and
- (iii) work experience over and above prescribed in
the Vacancy Circular /Advertisement)

(Note : Enclose a separate sheet, if the space is
insufficient).

16.(b) Achievements:

The candidates are requested to indicate
information with regard to:

- (i) Research Publications and reports and
special projects.
- (ii) Awards/ Scholarship/Official
Appreciation.
- (iii) Affiliation with professional bodies/

institutions/ societies and; (iv) Patent registered in own name or achieved for the organization. (v) Any research/innovative measure involving official recognition. (vi) Any other information (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)	
17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC)/ Absorption/ re-employment basis. # (Officers under Central/ State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of Non-Government Organizations are eligible only for Short Term Contract.) # (The option of 'STC'/Absorption/Re-employment are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment".)	
18. Whether belongs to SC/ST	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in Curriculum Vitae duly supported by documents in respect of Essential Qualification/Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information /details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having bearing on my selection has been suppressed/withheld.

Signature of the Candidate
 Address with E-mail ID.....

Date:

Place:

Certification by the Employer / Cadre Controlling Authority

The information/details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

Also certified that;

- i. There is no vigilance or disciplinary case pending / contemplated against Shri / Smt.
- ii. His / Her integrity is certified.
- iii. His / Her Integrity Report File (CR Dossier) in original is enclosed. Photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.
- iv. No Major / Minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years OR A list of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be).

Countersigned

(Employer / Cadre Controlling Authority with Seal)

